



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164]
No. 164]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1984/चैत्र 18, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1984/CHAITRA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राष्ट्र और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th April, 1984

का. आ. 251(अ).—केंद्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मंडल एग्रो कमोडिटीज एक्सचेंज कंपनी लि., मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुरु की अग्रिम संविदाओं के बारे में 7 अप्रैल, 1984 से 6 अप्रैल, 1986 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की दो वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे।

[मिसिल सं. 12(1)-आई.टी./84]

S.O. 251(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Mccrut Agro Commodities Exchange Company Ltd., Mccrut and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a period of two years from the 7th April, 1984 to the 6th April, 1986 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to

time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/84]

का. अ. 252(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 1 के अधीन सांगली ट्रेडर्स एसोसियेशन लिमिटेड, सांगली द्वारा मान्यता प्राप्त के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसियेशन को गृह की अग्रिम संविदाओं के बारे में 7 अप्रैल, 1984 से 6 अप्रैल, 1986 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की दो वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसियेशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मिसिल सं. 12(1)-आई.टी./84]

डी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 252(E).—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commissions, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Sangli Traders Association Ltd., Sangli and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a period of two years from the 7th April, 1984 to the 6th April, 1986 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/84]

D. K. SINGH, Jt. Secy.